



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]
No. 54]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2007/माघ 19, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2007/MAGHA 19, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2007

सं. 3/2007-के.उ.शु. (गै.टै.)

सा.का.नि. 69(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियमावली, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 में नियम 12 में, उप नियम (1) में मौजूदा परन्तुक से पहले निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किये जाते हैं, नामतः—

“बशर्ते कि टैरिफ मद 2106 90 20 के अंतर्गत आने वाले पान मसाला अथवा टैरिफ मद 2403 99 90 के अंतर्गत आने वाले तम्बाकू वाले पान मसालों का विनिर्माण करने वाले निर्धारित भी विवरणी के साथ, उस माह, जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें संक्षेप में—

- (i) सुपारी, तम्बाकू तथा पैकिंग सामग्री के साथ-साथ खरीदे गए उक्त सामान की मात्रा के आपूर्तिकर्ताओं के नाम व पते सहित उस माह के लिए क्रय बीजक हों; तथा
- (ii) करदाता द्वारा उस माह के दौरान बेचे गये सामान के बीजक जिसमें खरीददार का नाम व पता, माल का विवरण, मात्रा तथा मूल्य दिये गये हों।

स्पष्टीकरण : यदि फैक्टरी से सामान की बिक्री नहीं होती है तो उस परिसर का पता भी दिया जाएगा जहाँ फैक्टरी से माल ले जाया जाता हो”।

[फा. सं. 213/18/2006-सी.उ.शु.-6]

राहुल नांगरे, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 1-3-2002 को अधिसूचना सं. 4/2002-के.उ.शु. (गै.टै.) के द्वारा दिनांक 1-3-2002 के सा.का.नि. 143(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे तथा अंतिम बार दिनांक 30-12-2006 की अधिसूचना सं. 30/2006-के.उ.शु. (गै.टै.) के द्वारा दिनांक 30-12-2006 के सा.का.नि. 780(अ) के तहत संशोधित किये गये थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2007

No. 3/2007-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 69(E).— In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 2002, in rule 12, in sub-rule (1), before the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that an assessee, manufacturing pan masala falling under tariff item 2106 90 20 or pan masala containing tobacco falling under tariff item 2403 99 90, shall also file, along with the return, for the month to which the said return relates, a statement summarizing—

- (i) the purchase invoices for the month with the names and addresses of the suppliers of betel nut, tobacco and packing material along with the quantity of the said goods purchased; and
- (ii) the sales invoices for the month with the names and addresses of the buyers, description, quantity and value of goods sold by the assessee.

Explanation : When the goods are not sold from the factory, the address of the premises to which the goods are dispatched from the factory shall also be provided.”

[F.No. 213/18/2006-CX-6]

RAHUL NANGARE, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification No. 4/2002-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2002, *vide* G.S.R. 143(E) dated the 1st March, 2002, and were last amended *vide* notification No. 30/2006-Central Excise (N.T.), dated the 30th December, 2006, *vide* G.S.R. 780(E) dated the 30th December, 2006.